



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2001/माघ 2, 1922

No. 30]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2001/MAGHA 2, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2001

सं. 1/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 32(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ये निदेश देती है कि इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति संशोधन किया जायेगा।

सारणी

क्रम. सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	32/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999	उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल" शब्दों, अकों एवं कोष्ठकों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सिगरेट से भिन्न, पहली अनुसूची एवं दूसरी अनुसूची, में विनिर्दिष्ट माल" शब्द, अंक एवं कोष्ठक रखे जायेंगे।
2.	33/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999	उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, मद (क) में "इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की पहली अनुसूची के अध्याय 24 के

अंतर्गत आने वाले सिगरेट से भिन्न, इस अधिसूचना से उपायुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्द, अंक एवं कोष्ठक रखे जायेंगे।

[फा. सं. 354/13/2001-टी.आर.यू.]

जी.डी. लोहानी, अवर सचिव

- टिप्पण :—**1. मूल अधिसूचना सं. 32/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 53/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 2000 [सा.का.नि. 855(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2000] द्वारा किया गया।
2. मूल अधिसूचना सं. 33/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 3/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 9 फरवरी, 2000 [सा.का.नि. 100(अ), तारीख 9 फरवरी, 2000] द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2001

NO. 1/2001-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	32/99-Central Excise, dated the 8th July, 1999	In the said Notification, in the first paragraph, for the words, figures and brackets "the goods specified in the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (1 of 1986)", the words, figures and brackets "the goods specified in the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (1 of 1986) other than cigarettes falling under Chapter 24 of the said First Schedule" shall be substituted.
2.	33/99-Central Excise, dated the 8th July, 1999	In the said notification, in the first paragraph, in item (a), for the words "specified in the Schedule appended to this notification", the words, figures and brackets "specified in the Schedule appended to this notification other than cigarettes falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (1 of 1986)" shall be substituted.

[F. No. 354/13/2001-TRU]

G.D. LOHANI, Under Secy

Note :—(1) The principal notification No. 32/99-Central Excise, dated the 8th July, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 508(E), dated the 8th July, 1999 and was last amended by notification No. 53/2000-Central Excise, dated the 9th November, 2000 [G.S.R. 855(E), dated the 9th November, 2000].

(2) The principal notification No. 33/99-Central Excise, dated the 8th July, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 509(E), dated the 8th July, 1999 and was last amended by notification No. 3/2000-Central Excise, dated the 9th February, 2000 [G.S.R. 100(E), dated the 9th February, 2000]